



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1982/चैत्र 11, 1904

No. 112]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1982/CHAITRA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1981

सं० 102/82-सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 298 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 70 के अंतर्गत आने वाले और उपाखण्ड सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जब इनका विद्युत लेप का विनिर्माण करने के लिए भारत में निर्यात किया जाता है, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उक्त भाग से

छूट देती है जितना कि उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की नत्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	सीमा शुल्क की दर
1	2	3
1.	15 से 200 वाट के विद्युत नैपों का विनिर्माण करने के लिए 45 मि० सी०, 60 मि० मि० और 80 मि० मि० व्यास के कांच गैल	मूल्य का 30 प्रतिशत
2.	क्रम सं० 1 के सामने विनिर्दिष्ट से भिन्न कांच	मूल्य का 10 प्रतिशत गैल

यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1982 तक जिसमें यह दिनांक भी सम्मिलित है, प्रभावी होगी।

[का० सं० 355/152/82-सीमा-शुल्क 1]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1982

No. 102/82-CUSTOMS

**G.S.R. 298(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling within Chapter 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India for the manufacture of electric lamp, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the rate specified in corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of duty
1	2	3
1.	Glass shells of sizes 45 mm, 60 mm and 80 mm diameter for manufacture of electric lamps of 15 to 200 watts	Thirty per cent <i>ad valorem</i> .
2.	Glass shells other than those specified against Sl. No. 1.	Ten per cent <i>ad valorem</i>

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of September, 1982.

[F. No. 355/152/82-Cus. I ]

सं० 103/82 सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 299 (अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक, 1982 के खंड 4 के, जो खंड, अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है उपखंड (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम,

1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 60-सीमा शुल्क ता० 28 फरवरी, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं० 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा—

(ख) क्रम सं० 208 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित संतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“209 सं० 102/82 सीमा शुल्क तारीख 1 अप्रैल, 1982”

[एफ० सं० 355/152/81-कस० 1]

के० चंद्रमौलि, अवर सचिव

No. 103/82-CUSTOMS

**G.S.R. 299(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 60-Customs, dated the 28th February, 1982 :—

In the Schedule to the said notification,—

(a) Serial No. 163 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after Serial No. 208 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“209. No. 102/82-Customs, dated the 1st April, 1982”.

[F. No. 355/152/81-Cus. II]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.